

फल् से बचाव के उपाय



टीका लगवाएं



बार-बार
हाथ धोएं



खांसी और
छींक को ढकें



बीमार होने पर
घर पर रहें

छह महीने और उससे अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर साल फल् वैक्सीन की सिफारिश की जाती है।

अपनी और अपने प्रियजनों की फल् से रक्षा करें